



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1944 (श10)
(सं0 पटना 1090) पटना, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना
8 दिसम्बर, 2022

सं० कारा/स्था0(प्रो0)-01-21/2022-13258—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-24 लो0से0आ0/गो0, दिनांक-08.09.2022 द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन स्तर-9 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित प्रोबेशन कार्यालयों में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री सौरभ सेतु	सहरसा	23	01	जिला प्रोबेशन कार्यालय, शिवहर
2	श्री सुनील कुमार गुप्ता	सीतामढ़ी	38	05	जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेतिया
3	सुश्री/श्रीमती अल्पना पाण्डेय	गोरखपुर (उ0प्र0)	47	01	जिला प्रोबेशन कार्यालय, मोतिहारी
4	सुश्री/श्रीमती स्नेहा साल्वी	पटना	51	01	जिला प्रोबेशन कार्यालय, जहानाबाद
5	सुश्री/श्रीमती रुचि कुमारी	मुजफ्फरपुर	57	01	जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीतामढ़ी
6	श्री महेश कुमार	शेखपुरा	130	04	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, दरभंगा
7	सुश्री/श्रीमती सीमा कुमारी	नवादा	143	05	जिला प्रोबेशन कार्यालय, जमुई
8	श्री शोभित श्रीवास्तव	सिवान	155	07 (FFD)	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, भागलपुर

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
9	मो० सद्दाम हुसैन	पटना	164	04	जिला प्रोबेशन कार्यालय, सिवान
10	सुश्री/श्रीमती श्रद्धा सुमन	नालंदा	177	06	जिला प्रोबेशन कार्यालय, शेखपुरा
11	सुश्री/श्रीमती रुचिला रानी	वैशाली	215	04	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर
12	श्री ऐश्वर्य रंजन	मुजफ्फरपुर	363	02	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, सहरसा
13	श्री अविनाश कुमार चौधरी	समस्तीपुर	399	02	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पूर्णियाँ
14	सुश्री/श्रीमती श्रेयसी	पटना	400	01 (Disabled-vi)	जिला प्रोबेशन कार्यालय, समस्तीपुर
15	श्री अमरदीप कुमार	सुपौल	480	05 (Disabled-OH)	जिला प्रोबेशन कार्यालय, मधेपुरा
16	सुश्री/श्रीमती श्रेया सुमन	भोजपुर	730	02	जिला प्रोबेशन कार्यालय, बक्सर
17	श्री आदित्य सौरभ	दरभंगा	1703	01 (Disabled-DD)	जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार
18	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पटना	1710	01 (Disabled-MD)	प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, गया

2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त नियुक्ति औपबधिक रूप से की जाती है।

3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

5. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान पदस्थापित कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

6. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र/शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र/प्रवेश पत्र/पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/बी.पी.एस.सी. द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय उक्त वांछित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
संजीव जमुआर,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1090-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>